

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से, कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्लान की हिमायत की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 सितम्बर, 2020) – आज कमेटी ऑफ काउंसिल (Committee of Council) की मीटिंग में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) के मेम्बर्स ने सर्वसम्मति से, सिटी के कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्लान (सी.ई.ई.आर.पी.) (Community Energy and Emission Reduction Plan) (CEERP) की हिमायत करके, सिटी की ग्रीनहाउस (जी.एच.जी.) (GHG) निकासियों को 2050 तक, 80 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम उठाया है।

शेरिडन कॉलेज (Sheridan College) के साथ साझेदारी में विकसित, सी.ई.ई.आर.पी. (CEERP), सिटी, निवासियों और कारोबारियों की मदद के लिए गाइड के तौर पर काम करेगा। इसमें ऊर्जा क्षमता में सुधार करने, जी.एच.जी. (GHG) निकासियों को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने, आर्थिक लाभ लेने और जलवायु में बदलाव संबंधी लचीलेपन को बढ़ाने के लिए, नई बेहतर पद्धतियों के विकास और उन्हें ग्रहण करने में मदद करना शामिल है। सी.ई.ई.आर.पी. के, विशेष रूप से तीन लक्ष्य हैं:

- पूरे समुदाय में उपयोगकर्ता द्वारा ऊर्जा के सीधे प्रयोग को, 2041 तक, 2016 के स्तरों से कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करना
- पूरे समुदाय में निकासियों को 2041 तक, 2016 के स्तरों से कम से कम 50 प्रतिशत तक कम करना और फेडरल तथा प्रांतीय लक्ष्यों को पूरा करने या इससे भी अधिक कम करने के लिए 2050 में कम से कम 80 प्रतिशत तक कम करने का रास्ता तैयार करना।
- 2041 तक समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा लागतों में कम से कम \$26 बिलियन की रकम रखना।

सिटी, सात कार्यनीति संबंधी दिशाओं के द्वारा इन तीन लक्ष्यों को पूरा करेगी। कार्यनीति संबंधी प्रत्येक दिशा के कई प्रकार के उद्देश्य और 2041 के लक्ष्य हैं, जो सिटी और सामुदायिक कार्रवाईयों को दिशा प्रदान करेंगे। ब्रैम्पटन के ऊर्जा परिवर्तन की गति को बढ़ाने के लिए, सी.ई.ई.आर.पी. ने छह प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जो अगले पांच वर्षों के अंदर पूरे किए जाने हैं। प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट्स के बाद, सी.ई.ई.आर.पी., प्लान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अगले 20 वर्षों तक की कुछ कार्रवाईयों का संक्षिप्त वर्णन करता है। इन कार्रवाईयों को जारी, छोटी, मध्यम या लंबी अवधि के तौर पर पहचाना गया है और नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।

सी.ई.ई.आर.पी. के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/ceerp पर जाएं।

संक्षिप्त तथ्य

- 2019 में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने शहर में पैदा होने वाली जी.एच.जी. निकासियों को 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य के साथ, जलवायु संबंधी एमरजेंसी घोषित करने के लिए सर्वसम्मति से वोट दी थी।
- इंडस्ट्री और सामुदायिक लीडर्स के ग्रुप, सी.ई.ई.आर.पी. कम्युनिटी टास्क फोर्स (CEERP Community Task Force) ने प्लान को विकसित करने में सहयोग दिया है।
- फरवरी में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने वन मिलियन ट्रीज प्रोग्राम (One Million Trees Program) के हिस्से के तौर पर, हर साल पूरे शहर में 50,000 नए पेड़ लगाने की हिमायत की थी। यह जलवायु संबंधी बदलाव के खतरे से निपटने का दूसरा बड़ा कदम है।
- मेयर पैट्रिक ब्राउन, ग्लोबल कोवनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) के मेम्बर हैं। यह जलवायु में बदलाव के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व करने वाले 9,200 से अधिक शहरों का इस तरह का पहला ग्लोबल गठबंधन है।
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, पील क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप (Peel Climate Change Partnership) की मेम्बर है। यह रीजन ऑफ पील (Region of Peel) और लोकल कम्युनिटीज के बीच में सहयोग है, जो प्रोजेक्ट्स और फंडिंग सुरक्षित करने के लिए इकट्ठे काम करती हैं, जिससे संगठन के प्रत्येक मेम्बर को ग्रीनहाउस ग्रीन निकासियों को कम करने और जलवायु संबंधी बदलाव को ग्रहण करने में मदद मिलेगी।

हवाले

“कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्लान, स्थिर, ग्रीन सिटी बनने के हमारे सफर की ओर दूसरा बड़ा कदम है। यह न केवल ब्रैम्पटन में, ग्रीनहाउस ग्रीन निकासियों को 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करेगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ब्रैम्पटन, जलवायु संबंधी एमरजेंसी के विरुद्ध हमारी लड़ाई में म्युनिसिपल लीडर है। जलवायु संबंधी बदलाव के खतरे से निपटने के लिए हम सभी के लिए इकट्ठे काम करना जारी रखना आवश्यक है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“म्युनिसिपल्टीज, कैनेडा में सभी जी.एच.जी. निकासियों में से लगभग आधी के लिए जिम्मेदार हैं। कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्लान, ग्रीन सिटी बनने की ब्रैम्पटन की प्रतिबद्धता की स्पष्ट मिसाल है। मुझे यकीन है कि यह ऊर्जा क्षमता में सुधार करने, जी.एच.जी. निकासियों को कम करने और जलवायु संबंधी बदलाव में लचीलेपन में वृद्धि करने के प्रति हमारे समर्पण में हमारी मदद करेगा।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“वातावरण में छोड़ी जाने वाली हमारी कार्बन की मात्रा (कार्बन फुटप्रिंट) को कम करने के लिए, इस घोषित जलवायु संबंधी एमरजेंसी के दौरान, हमारे लिए इकट्ठे काम करना जारी रखना आवश्यक है। आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने सी.ई.ई.आर.पी. कम्युनिटी टास्क फोर्स के हिस्से के तौर पर सहयोग किया। साथ ही उन निवासियों का धन्यवाद, जो कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्लान के बारे में और जानने के लिए, समावेश सेशन में शामिल हुए। यह स्थिरता की ओर हमारे सफर पर एक आवश्यक रोडमैप के तौर पर मदद करेगा, जैसे कि हम ग्रीन सिटी बनाने पर काम करना जारी रख रहे हैं।”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6, मेम्बर, सी.ई.ई.आर.पी. कम्युनिटी टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“शेरिडन के साथ साझेदारी में विकसित, कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशन रिडक्शन प्लान स्टाफ का मार्गदर्शन करेगा क्योंकि हम ग्रीन सिटी बनने की ब्रैम्पटन की प्राथमिकता की ओर काम जारी रखा है। साथ ही हम, हमारे समुदाय में ग्रीनहाउस ग्रीन निकासियां को, 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करने के, काउंसिल के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca